

## प्रेस नोट दिनांक-01-07-2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गुमशुदा/अपहता की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री संदीप कुमार पटेल चौकी प्रभारी सैरैया तथा उनकी टीम द्वारा गुमशुदा होरीलाल पुत्र धर्मा को सकुशल उसकी माता जी के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक 30.06.2021 की सायं को चौकी प्रभारी सैरैया को पैदल गस्त के दौरान राजापुर तिराहा के पास 01 बच्चा उम्र लगभग 09 वर्ष रोता हुआ मिला, पुलिस टीम द्वारा बच्चे को शांत कराकर नाम पता पूछा गया। बच्चा ने अपना नाम होरीलाल व अपने पिता जी का नाम धर्मा बताया एवं पता नहीं बता पा रहा था। पुलिस टीम द्वारा आस-पास से गुजर रहे लोगों एवं दुकानदारों से बच्चे के सम्बन्ध में जानकारी की गयी। बच्चे के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई कि बच्चे की माता जी ग्राम गढ़चपा में सामारोह में सम्मिलित होने आयी है, बच्चा लक्ष्मणपुरी कर्वी का रहने वाला है। पिता जी की डांट से क्षुब्ध होकर अपनी मां के पास जा रहा था कि रास्ता भटक गया। चौकी प्रभारी सैरैया द्वारा ग्राम गढ़चपा में बच्चे की माता जी को सूचना दी एवं आने पर सकुशल बच्चे को सुपुर्द किया गया।

### सुपुर्दगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री संदीप कुमार पटेल चौकी प्रभारी सैरैया
2. आरक्षी चन्द्रभूषण राय
3. आरक्षी दुर्गेश कुमार
4. आरक्षी लखनलाल

(2). दिनांक-01.07.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में डकैत गौरी गैंग की धरपकड़ हेतु चित्रकूट पुलिस की 03 टीमों ने जंगलों में कॉम्बिंग की। श्री दीनदयाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा के नेतृत्व में माड़ो बांध के जंगलो में, उ0नि0 श्री संदीप कुमार पटेल के नेतृत्व में खोख लहर जंगल में, उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता थाना रैपुरा के नेतृत्व में चुरचुरहा पुरवा,धौहाई, हनुमानगंज के जंगलों में गौरी यादव गैंग की धरपकड़ हेतु कॉम्बिंग की गयी।

(3). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 01.07.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बस स्टैंड, डॉट पुल एवं बैंक बाजार में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा आर्यावर्त बैंक, कस्बा मारकुण्डी एवं ग्राम किहुनियां में, एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा रेलवे स्टेशन बहिलपुरवा एवं पुराना बहिलपुरवा में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में बाजार बस स्टैण्ड, नीबीं रोड में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम धुनैहा व सेमरा में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा, धुस मैदान में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया। सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।